



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 439]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 2, 1976/आश्विन 10, 1898

No. 439]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 2, 1976/ASVINA 10, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING (Banking Wing) NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th September 1976

S.O. 651(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government being requested so to do by the State Bank of Mysore, establishes, with effect from the 2nd October, 1976, a Regional Rural Bank in the State of Karnataka under the name of Cauvery Grammeena Bank, which shall operate within the local limits of the district of Mysore in the State of Karnataka.

[No. F. 4-86/76-AC(D)]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(बैंकिंग पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1976

का० प्रा० 651(अ).—क्षेत्रीय/ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक

(1897)

भ्राफ मैसूर के अतुरोध पर, कर्नाटक राज्य में, 2 अक्टूबर, 1976 से 'कावेरी ग्रामीण बैंक' नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापना करती है। यह बैंक कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले की स्थानीय सोमाग्रों में अपना कारोबार करेगा।

[सं० एफ० 4-86/76-एसी(1)]

S.O. 652(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and the State Bank of Mysore, by which Cauvery Grameena Bank has been sponsored, specifies Mysore as the place where Cauvery Grameena Bank shall have its head office.

[No. F. 4-86/76-AC(II)]

क्र० प्र० 652 (अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा कावेरी ग्रामीण बैंक के प्रायोजक स्टेट बैंक भ्राफ मैसूर के परामर्श से मैसूर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर कावेरी ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं० एफ० 4-86/76-एसी (2)]

S.O. 653(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Cauvery Grameena Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 4-86/76-AC(III)]

M. G. BALASUBRAMANIAN, Addl. Secy.

क्र० प्र० 653 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में; केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कावेरी ग्रामीण बैंक को उक्त उपखण्ड के प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० एफ० 4-86/76-एसी(3)]

एम० जी० बालसुब्रमण्यन, अपर सचिव।

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

NOTIFICATION

Bombay, the 2nd October 1976

S.O. 654(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Cauvery Grameena Bank, Mysore.

[DBOD No. 131/INCL./C. 102-76]

K. S. KRISHNASWAMY, Dy. Governor.

भारतीय रिजर्व बैंक
(बैंक का परिचालन तथा विकास विभाग)

अधिसूचना

बम्बई, 2 अक्टूबर 1976

का० आ० 054 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए; अर्थात् :—

कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर।

[डी बी ओ डी सं० 131/आई० एन० सी० एल०/सी० 102/76]

के० एस० कृष्णस्वामी,

उप गवर्नर।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
निर्यन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

